

**प्रारूप 48**  
**राष्ट्रीय परमिट देने के लिए आवेदन**  
**[नियम 86 देखिए]**

सेवा में,

प्रादेशिक/राज्य परिवहन अधिकारी

.....

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, भारत के राज्य क्षेत्र ..... ( यहाँ वांछित राज्यों के नाम लिखें) राज्य में सर्वत्र विधिमान्य राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम
2. आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदारी, फर्म, सहकारी, सोसाइटी आदि है।
3. पिता या पति का नाम (व्यक्ति की दशा में) और कंपनी या फर्म की दशा में, यथास्थित प्रबंध भागीदार या प्रबंध निदेशक की रजिस्ट्रीकरण संख्याक
4. पूरा पता (व्यक्ति की दशा में) राशन कार्ड, विद्युत बिल आदि की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों सबूत द्वारा और कंपनी या फर्म की दशा में यथास्थिति, संगत ज्ञापन या भागीदार विलेख की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए।
  - (1) क्या आवेदन स्वयं यान चालन चाहता है।
  - (2) यदि हां तो क्या आवेदक के पास भारी यात्री मोटर यान चलाने अनुज्ञप्ति है?
  - (3) चालन अनुज्ञप्ति का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि
  - (4) अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
6. प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र
7. किसी विशेष यान की बावत अन्य परमिट धारित किया हुआ है तो उसका व्यौरा
8. आवेदक के द्वारा पहले से ही धारित राष्ट्रीय परमिट संख्या का व्यौरा
9. यान का टाइप, क्या वह दो धुरी वाला ट्रक या संलग्न यान या बहुधुरी वाला यान या ट्रक ट्रेलर संयोजन है।
10. मोटर यान का सैक
11. आवेदक (आवेदकों) द्वारा धारित यान /परमिट की बावत गत तीन वर्षों के दौरान दोषसिद्ध/निलम्बन/रद्दकरण, यदि कोई हो, की विवरणियाँ
12. मैं/हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भेजता हूँ/भेजते हैं या मैं/हम यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र परमिट जारी किए जाने से पहले प्रस्तुत कर दूँगाँ/देगें।
13. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं और यह कि मैं/हम इस राज्य का/के निवासी हूँ/हैं और इस राज्य में ..... के ..... स्थान पर मेरा/हमारा कारबार का मुख्य स्थान है।
14. मैंने/हमने ..... रुपये की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप